



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 79]

नई दिल्ली, रविवार, मार्च 1, 1981/फाल्गुन 10, 1902

No. 79]

NEW DELHI, SUNDAY, MARCH 1, 1981/PHALGUNA 10, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1981

औषधीय और प्रसाधन निमित्तियां

सा० का० नि० 167 (अ) —केन्द्रीय औषधीय और प्रसाधन
निमित्तियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16) की
धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औषधीय और
प्रसाधन निमित्तियां (उत्पाद-शुल्क) नियम, 1956 का और संशोधन करने
के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधीय और प्रसाधन निमित्तियां (उत्पाद-शुल्क) संशोधन नियम, 1981 है।

(2) ये 1 मार्च, 1981 में प्रवृत्त होंगे।

2 औषधीय और प्रसाधन निमित्तियां (उत्पाद-शुल्क) नियम, 1956
के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 2 में,
खण्ड (xvi) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा,
अर्थात् —

“(xvi) क) ‘शुद्ध एल्कोहॉल’ में 15 डिग्री सेटीग्रेट पर पबलता के
प्राधार पर 100 प्रतिशत का एथिल एल्कोहॉल अभिप्रेत है,”

3 उक्त नियम के नियम 29 के उपनियम (1) में, ‘पूक स्पिरिट
अण का अभिनिश्चय’ शब्दों के स्थान पर ‘शुद्ध एल्कोहॉल अण का अभि-
निश्चय’ शब्द रखे जायेंगे।

4 उक्त नियम के नियम 33 में—

(क) उपनियम (1) में, “एल्कोहॉल की प्रबलता” शब्दों के स्थान
पर “शुद्ध एल्कोहॉल अण का प्रतिशत” शब्द रखे जायेंगे,

(ख) उपनियम (iv) और (v) तथा उपनियम (x) के खण्ड
(क) में, “की एल्कोहॉल प्रबलता” शब्दों के स्थान पर
“में शुद्ध एल्कोहॉल अण का प्रतिशत” शब्द रखे जायेंगे।

5. उक्त नियम के नियम 34 के उपनियम (iii) और (iv) में "एल्कोहाल प्रबलता" शब्दों के स्थान पर "शुद्ध एल्कोहाल के अंश का प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियम के नियम 37 के उपनियम (2) में, "निर्मिति में स्प्रिट की मात्रा" शब्दों के स्थान पर निर्मित में शुद्ध एल्कोहाल के अंश का प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।

7. उक्त नियम के नियम 38 के,—

(क) उपनियम (1) में, "यदि किसी निर्मिति की एल्कोहाल प्रबलता रासायनिक परीक्षक द्वारा अनुज्ञेय उच्चतम सीमा से 3 प्रूफ डिग्री से अधिक या अनुज्ञेय न्यूनतम सीमा से 3 प्रूफ डिग्री से कम पाई जाती है" शब्दों और अंकों के स्थान पर "यदि किसी निर्मिति में शुद्ध एल्कोहाल के अंश का प्रतिशत रासायनिक परीक्षक द्वारा अनुज्ञेय उच्चतम सीमा से 1.75 प्रतिशत प्रबलता मात्रक से अधिक है या अनुज्ञेय न्यूनतम सीमा से कम पाया जाता है" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ख) उपनियम (2) में, "औषधि की एल्कोहालिक प्रबलता या घटकाव्यक्त का यथोचित रूप में समायोजन" शब्दों के स्थान पर "औषधि में शुद्ध एल्कोहाल के अंश का प्रतिशत या घटकाव्यक्त का यथोचित रूप में समायोजन" शब्द रखे जाएंगे।

(ग) उपनियम (4) में, "जहां कि रासायनिक परीक्षक द्वारा निर्मित के किसी धान के प्रतिशत प्राबल्य का अधिकतम अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घोषित प्रतिशत प्राबल्य से 2.0 प्रूफ डिग्री अधिक पाया जाता है वहां रासायनिक परीक्षक द्वारा यथाअभिनिष्ठित सही प्रतिशत" शब्दों और अंकों के स्थान पर "जहां कि रासायनिक परीक्षक ने निर्मित के किसी धान का प्रतिशत प्रबलता मात्रक का आधिक्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घोषित शब्द एल्कोहाल अंश के प्रबलता मात्रक के आधार पर 1.2 प्रतिशत से अधिक पाया जाता है वहां रासायनिक परीक्षक द्वारा यथाअभिनिष्ठित शुद्ध एल्कोहाल अंश का सही प्रतिशत" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(घ) उपनियम (5) में, "यदि निर्मित के किसी धान का प्रतिशत प्राबल्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घोषित प्रतिशत प्राबल्य से कम पाया जाता है शब्दों के स्थान पर "यदि निर्मित के किसी धान के शुद्ध एल्कोहाल अंश का प्रतिशत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घोषित प्रतिशत से कम पाया जाता है" शब्द रखे जाएंगे।

8. उक्त नियम के नियम 47 के खण्ड (vi) में, "यदि लब्ध प्रूफ लीटर मध्ये 15 10 पैसे और 3 रु 85 पैसे और 15 रु 50 पैसे के शुल्क पर अय की गई" शब्दों और अंकों के स्थान पर "यदि प्रति लीटर 6 रु 60 पैसे और 13 रु 20 पैसे और 52 रु 80 पैसे के शुल्क पर या तत्स्थानी शुल्क की मूल्यानुसार दर पर अय की गई" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

9. उक्त नियम के नियम 48 के,—

(क) उपनियम (v) में, "अन्तर्विष्ट प्रूफ स्प्रिट की मात्रा" शब्दों के स्थान पर "शुद्ध एल्कोहाल अंश की मात्रा" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उपनियम (vi) में, "एल्कोहालिक अन्तर्वस्तुओं की प्रूफ प्रबलता और उसमें अन्तर्विष्ट परिशुद्ध एल्कोहाल का औसत प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "शुद्ध एल्कोहाल की प्रबलता का प्रतिशत और उसमें अन्तर्विष्ट परिशुद्ध एल्कोहाल का औसत प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।

10. उक्त नियम के नियम 49 के उपनियम (1) में, "प्रति लब्ध प्रूफ लीटर 1 रु 10 पैसे और 3 रु 85 पैसे और 15 रु 50 पैसे का शुल्क देकर खरीदी गई परिशुद्ध स्प्रिट सम्बन्धी सभी सव्यवहारों के लेखे अलग रखे जाएंगे" शब्दों और अंकों के स्थान पर "शुद्ध एल्कोहाल अन्तर्वस्तु का प्रति लीटर 6 रु 60 पैसे और 13 रु 20 पैसे और 52 रु 80 पैसे का शुल्क या तत्स्थानी शुल्क की मूल्यानुसार दर देकर खरीदी गई परिशुद्ध स्प्रिट सम्बन्धी सभी सव्यवहारों के लेखे अलग रखे जाएंगे" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

11. उक्त नियम के नियम 51 के उपनियम (2) और (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात्—

"(2) औषधीय निर्मितियां, जिसमें एल्कोहाल हो जिसका उपयोग सामान्य एल्कोहाल पेय के रूप में किया जा सकता है और जो अधिनियम के अनुसूची की मद सं० 1 (ii) (क) के अधीन आते हो ऐसी परिशोधित स्प्रिट से विनिर्मित नहीं की जाएगी जिस पर शुद्ध एल्कोहाल अन्तर्वस्तु के प्रति लीटर केवल 6 रु 60 पैसे का शुल्क संदत्त किया गया हो और ऐसी निर्मितियां ऐसी परिशोधित स्प्रिट से विनिर्मित की जाएगी जिस पर शुद्ध एल्कोहाल अन्तर्वस्तु के प्रति लीटर 13 रु 20 पैसे का शुल्क संदत्त किया गया हो और 13 रु 20 पैसे का पूर्वोक्त शुल्क का संदाय करने पर अभिप्राण परिशोधित स्प्रिट का लेखा पुथक रखा जाएगा।"

(2क) "औषधीय निर्मितियां जिनमें एल्कोहाल हो, जिसका उपयोग सामान्य एल्कोहाल पेय के रूप में किया जा सकता है और जो अधिनियम की अनुसूची की मद सं० 2 (ii) (ख) या मद सं० 2 (iii) के अधीन आती है, ऐसी परिशोधित स्प्रिट से विनिर्मित नहीं की जाएगी जिस पर शुद्ध एल्कोहाल अन्तर्वस्तु के प्रति लीटर 6 रु 60 पैसे या 13 रु 20 पैसे शुल्क संदत्त किया गया है और ऐसी निर्मितियां केवल ऐसी परिशोधित स्प्रिट से विनिर्मित की जाएगी जिन पर शुद्ध एल्कोहाल अन्तर्वस्तु के प्रति लीटर 52 रु 80 पैसे शुल्क संदत्त किया गया है और 52 रु 80 पैसे का उपरोक्त शुल्क का संदाय करने पर अभिप्राण परिशोधित स्प्रिट का लेखा पुथक रखा जाएगा।

12. उक्त नियम के नियम 53 के उपनियम (ii) में "विनिर्माता ने ऐसी बोनलों पर बिपकाए गए लेबलों पर जो प्रबलता घोषित की है यदि रासायनिक परीक्षक द्वारा प्रतिवेदित प्रूफ प्रबलता उसमें मौन प्रतिशत प्रूफ स्प्रिट से अधिक है" शब्दों और अंकों के स्थान पर "विनिर्माता ने ऐसी बोनलों पर बिपकाए गए लेबलों पर शुद्ध एल्कोहाल का जो प्रतिशत घोषित किया है यदि शुद्ध एल्कोहाल अन्तर्वस्तु का प्रतिशत उसमें 1.75 प्रतिशत प्रबलता मात्रक से अधिक है" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

13. उक्त नियम के नियम 66 में "जिन आयुर्वेदिक निर्मितियों" शब्दों से प्रारम्भ होने वाले और "उद्ग्रहणीय होगा" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले प्रभाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात्—

"जिन आयुर्वेदिक निर्मितियों में जहां एल्कोहाल है उनमें से से जिन में शुद्ध एल्कोहाल का प्रतिशत प्रबलता से 1.2 यूनिट से अधिक नहीं है, उन पर कोई शुल्क उद्ग्रहणीय नहीं होगा। जहां शुद्ध एल्कोहाल का प्रतिशत प्रबलता से 1.2 यूनिट से अधिक है वहां इस बात के अनन्तर कि निर्मितियां एल्कोहाली पेय के रूप में उपभोग्य है या नहीं उस पर अधिनियम की अनुसूची की मद सं० 2 (i) या 2 (ii) के अधीन शुल्क उद्ग्रहणीय होगा;"

14. उक्त नियम के नियम 76 में "प्रक प्रबलता" शब्दों के स्थान पर "प्रबलता के आधार पर शुद्ध एल्कोहल का प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।

15. उक्त नियम के नियम 83 के उपनियम (2) के नीचे की गारण्टी में,—

(i) क्रम संख्या 1 के मामले दूसरे स्तम्भ में,—

(1) मद (क) में उपमद (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद रखी जाएंगी, अर्थात्—

"(i) जहाँ, उपभुक्त एल्कोहल में, शुद्ध एल्कोहल का प्रतिशत 2250 लीटर से कम है,

(ii) जहाँ, उपभुक्त एल्कोहल में, शुद्ध एल्कोहल का प्रतिशत 2250 लीटर से अधिक है।",

(2) मद (ग) में उपमद (i) और (ii) के स्थान पर निम्न लिखित उपमद रखी जाएंगी, अर्थात्—

"(i) जहाँ, उपभुक्त एल्कोहल में, शुद्ध एल्कोहल की मात्रा प्रतिवर्ष 2250 लीटर से कम है,

(ii) जहाँ, उपभुक्त एल्कोहल में, शुद्ध एल्कोहल की मात्रा प्रतिवर्ष 2250 लीटर से अधिक है।",

(ii) क्रम संख्या 2 के मामले दूसरे स्तम्भ में,—

(i) मद (क) में, उपमद (i) (ii) और (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद रखी जाएंगी, अर्थात्—

"(i) जहाँ, उपभुक्त एल्कोहल में, शुद्ध एल्कोहल प्रतिवर्ष 70 लीटर या उससे कम है।

(ii) जहाँ, उपभुक्त एल्कोहल में, शुद्ध एल्कोहल प्रति वर्ष 70 लीटर से अधिक किन्तु 280 लीटर से कम है।

(iii) जहाँ, उपभुक्त एल्कोहल में, शुद्ध एल्कोहल प्रति वर्ष 280 लीटर या उससे अधिक है।",

(2) मद (ग) में उपमद (i), (ii) और (iii) के स्थान पर निम्न लिखित उपमद रखी जाएंगी, अर्थात्—

"(i) जहाँ, उपभुक्त एल्कोहल में, शुद्ध एल्कोहल प्रति वर्ष 70 लीटर या उससे कम है।

(ii) जहाँ, उपभुक्त एल्कोहल में, शुद्ध एल्कोहल प्रतिवर्ष 70 लीटर से अधिक किन्तु 280 लीटर से कम है।

(iii) जहाँ, उपभुक्त एल्कोहल में, शुद्ध एल्कोहल प्रतिवर्ष 280 लीटर या उससे अधिक है।"

16. उक्त नियम के नियम 91 क—

(क) खण्ड (vi) में "एल्कोहल और एल्कोहली अंश की लवन प्रक लीटर में अधिकतम मात्रा" शब्दों के स्थान पर "शुद्ध एल्कोहल की लीटरों में अधिकतम मात्रा" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) खण्ड (ix) में "एल्कोहल का लवन प्रक लीटरों में प्रतिशत या अनुपात" शब्दों के स्थान पर "शुद्ध एल्कोहल का लीटरों में प्रतिशत शब्द रखे जाएंगे।

17. उक्त नियम के नियम 99 के,—

(क) उपनियम (1) में "लवन प्रक लीटरों में उनके एल्कोहली अंश" शब्दों के स्थान पर "लीटरों में उनके शुद्ध एल्कोहली अंश" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उपनियम (2) में "लवन प्रक लीटरों में वह एल्कोहली अंश" शब्दों के स्थान पर "लीटरों में वह शुद्ध एल्कोहली अंश" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (3) के खण्ड (घ) में "लवन प्रक लीटरों में वस्तु का वह एल्कोहली अंश" शब्द के स्थान पर "लीटरों में वह शुद्ध एल्कोहली अंश शब्द रखे जाएंगे।

18. उक्त नियम में,—

(क) प्रारूप अनु० आबे०-1 की सारणी में और प्रारूप अनु०-1 और अनु०-2 में जहाँ कहीं "लवन प्रक लीटर" शब्द आए हों उनके स्थान पर "लीटरों में शुद्ध एल्कोहल अंश" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) प्रारूप रजि०-2 में जहाँ कहीं "प्रबल्य" और "प्रक" शब्द आए हैं उनके स्थान पर क्रमशः "शुद्धता" और "शुद्ध एल्कोहल का अंश" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) प्रारूप रजि०-3 में जहाँ कहीं "प्रबल्य" और "लवन प्रक लीटर" शब्द आए हैं उनके स्थान पर क्रमशः "शुद्धता" और "लीटरों में शुद्ध एल्कोहल अंश" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) प्रारूप रजि०-4 में स्तम्भ 4 के शीर्ष में "एल्कोहल (लवन प्रक लीटरों में)" शब्दों के स्थान पर "लीटरों में शुद्ध एल्कोहल" शब्द रखे जाएंगे;

(ङ) प्रारूप रजि०-5 (भाग 1) और रजि०-5 (भाग 2) में जहाँ कहीं भी "लवन प्रक लीटरों में एल्कोहल" शब्द आए हैं उनके स्थान पर "लीटरों में शुद्ध एल्कोहल" शब्द रखे जाएंगे;

(च) प्रारूप प्रा० (इण्डे) -1 में जहाँ कहीं "50 आ० पू० प्राबल्य में अल्पतम के" अभिव्यक्ति के स्थान पर "शुद्ध एल्कोहल के प्राबल्य के आधार पर 45 60 में अल्पतम के" शब्द रखे जाएंगे।

(छ) अधिप्रा०-1 में, जहाँ कहीं भी "प्रबल्य" और "एल्कोहली प्रक अल्पतम" शब्द आए हैं उनके स्थान पर क्रमशः "शुद्धता" और "लीटरों में शुद्ध एल्कोहल" शब्द रखे जाएंगे;

(ज) प्रारूप अधिसूचना आबे०-1, अधिसूचना आबे०-2, अधिसूचना आबे०-3, अधिसूचना आबे०-4 परिच० अनु०-1 में, "ल० पू० लीटरों में एल्कोहल" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "लीटरों में शुद्ध एल्कोहल" शब्द रखे जाएंगे।

(झ) प्रारूप शुल्क अधिसूचना-1 में जहाँ कहीं भी एल्कोहल (ल० पू० लीटरों में) शब्द, कोष्ठक और अक्षर आए हैं उनके स्थान पर "लीटरों में शुद्ध एल्कोहल" शब्द रखे जाएंगे;

(अ) प्ररूप सव्यव० विवर०-1 मे, "एल्कोहल ल० प्रू" शब्दो
और अमरों के स्थान पर 'शब्द एल्कोहल' गब्द रखे जाएंगे।

(ट) प्ररूप सव्यव० विवर०-2 मे, 'ल प्रू लीटरा म एल्कोहल'
गब्दा के स्थान पर "लीटरा म शब्द एल्कोहल" गब्द
रखे जाएंगे।

[अधिसूचना न० 1/81 आ० पी० एम०/ एम्० एफ० सं०
655/2/81-आ० पी० एम०]

जेड० बी० नागरकर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 1981

Medicinal and Toilet Preparations

G.S.R. 167(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (16 of 1955), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Rules, 1956 namely—

1 (1) These rules may be called the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Amendment Rules, 1981

(2) They shall come into force on the 1st day of March, 1981

2 In the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Rules, 1956, (hereinafter referred to as the said rules) in rule 2, after clause (xvi), the following clause shall be inserted namely—

(xvii) pure alcohol means ethyl alcohol of 100 per cent by volume at 15 degrees centigrade, "

3 In rule 29 of the said rules, in sub-rule (1), for the words "ascertaining the proof-spirit content" the words "ascertaining the pure alcohol content" shall be substituted,

4 In rule 33 of the said rules,—

(a) in sub-rule (i), for the words "strength of alcohol" the words "percentage content of pure alcohol" shall be substituted,

(b) in sub rules (iv) and (v) and clause (a) of sub-rule (x), for the words "alcoholic strength of" the words "percentage content of pure alcohol in" shall be substituted

5 In rule 34 of the said rules, in sub-rules (iii) and (iv), for the words "alcoholic strength" the words "percentage content of pure alcohol" shall be substituted

6 In rule 37 of the said rules in sub-rule (2), for the words "spirit strength of the preparation", the words "percentage content of pure alcohol in the preparation" shall be substituted,

7 In rule 38 of the said rules,—

(a) in sub-rule (i), for the words and figures "If the alcohol in strength of a preparation is found by the Chemical Examiner to exceed the highest allowable limit by more than 3 proof degrees" the words and figures "If the percentage content of pure alcohol in a preparation is found by the Chemical Examiner to exceed the highest allowable limit by more than 1.75 per cent by volume units" shall be substituted,

(b) in sub-rule (2) for the words to adjust the alcoholic strength of the medicaments' the words "to adjust the percentage content of pure alcohol in the medicaments" shall be substituted,

(c) in sub-rule (4), for the words and figures "When an excess of more than 2.0 proof degrees over the strength declared by the licensee of any batch of preparation is found by the Chemical Examiner, the true strength, as ascertained by the Chemical Examiner" the words and figures "When an excess of more than 1.2 per cent by volume units over the pure alcohol content declared by the licensee of any batch of preparation is found by the Chemical Examiner the true percentage of pure alcohol content, as ascertained by the Chemical Examiner" shall be substituted;

(d) in sub-rule (5), for the words "if the strength is found to be" the words "if the percentage of pure alcohol content is found to be" shall be substituted

8 In rule 47 of the said rules, in clause (vi), for the words, letters and figures 'purchased at the duty of Rs 1.10 paise and at Rs 3.85 paise and Rs 15.50 paise per London Proof litre', the words and figures 'purchased at the duty of Rs 6.60 and Rs 13.20 and Rs 52.80 per litre or the corresponding ad-valorem rates of duty' shall be substituted

9 In rule 48 of the said rules,—

(a) in sub-rule (v), for the words "the quantity of proof-spirit contained" the words "the quantity of pure alcohol content" shall be substituted,

(b) in sub-rule (vi) for the words the alcoholic content, in proof strength and the average percentage of absolute alcohol' the words "the percentage of pure alcohol by volume and the average percentage of absolute alcohol" shall be substituted

10 In rule 49 of the said rules, in sub-rule (1) for the sentence "Accounts of all transaction in respect of rectified spirit purchased paying the duty of Rs 1.10 paise Rs 3.85 paise and Rs 15.50 paise per London Proof litre shall be maintained, separately the sentence Accounts of all transactions in respect of rectified spirit purchased paying the duty of Rs 6.60 paise and Rs 13.20 paise and Rs 52.80 paise per litre of pure alcohol content or the corresponding ad-valorem rates of duty shall be maintained separately" shall be substituted

11 In rule 51 of the said rules for sub rule (2) and (2A) the following sub rules shall be substituted, namely—

"(2) Medicinal preparations containing alcohol which are capable of being used as ordinary alcoholic

beverages, falling under Item No. 1(ii) (a) of the Schedule to the Act, shall not be manufactured from rectified spirit on which only the duty of Rs. 6.60 per litre of pure alcohol content has been paid and such preparations shall be manufactured from rectified spirit on which a duty of Rs. 13.20 per litre of pure alcohol content has been paid and the rectified spirit obtained on payment of the aforesaid duty of Rs. 13.20 shall be accounted for separately.

(2A) Medicinal preparations containing alcohol which are capable of being used as ordinary alcoholic beverages, falling under Item No. 1 (ii) (b) or Item No. 2(iii) of the Schedule to the Act shall not be manufactured from rectified spirit on which the duty of Rs. 6.60 or Rs. 13.20 per litre of pure alcohol content has been paid and such preparations shall be manufactured only from rectified spirit on which a duty of Rs. 52.80 per litre of pure alcohol content has been paid and the rectified spirit obtained on payment of the aforesaid duty of Rs. 52.80 shall be accounted for separately."

12. In rule 53 of the said rules, in sub-rule (ii) for the words and figures "If the proof strength reported by the Chemical Examiner is more than 3 per cent proof spirit than the strength declared by the manufacturer on the label" the words and figures "If the percentage of pure alcohol content is more than 1.75 percentage volume units than the percentage of pure alcohol declared by the manufacturer on the label" shall be substituted.

13. In rule 66 of the said rules, for the portion beginning with the words "No duty shall be levied" and ending with the words "alcoholic beverage or not", the following shall be substituted, namely :—

"No duty shall be levied on Ayurvedic preparations containing self-generated alcohol in which the percentage of pure alcohol by volume does not exceed 1.2 units. Where the percentage of pure alcohol by volume exceeds 1.2 units the duty shall be leviable under Item No. 2(i) or (ii) of the Schedule to the Act according as the preparations are capable of being consumed as alcoholic beverages or not".

14. In rule 76, of the said rules, for the words "proof strength", the words "the percentage of pure alcohol by volume" shall be substituted.

15. In the table below sub-rule (2) of rule 83 of the said rules,—

(i) against Sl. No. 1, in the second column,—

(1) in item (a), for sub-items (i) and (ii), the following sub-items shall be substituted, namely:—

"(i) where, in the alcohol consumed, the pure alcohol content is less than 2250 litres per annum.

(ii) where, in the alcohol consumed, the pure alcohol content is more than 2250 litres per annum." ;

(2) in item (c), for sub-items (i) and (ii), the following sub-items shall be substituted, namely:—

"(i) where, in the alcohol consumed, the pure alcohol content is less than 2250 litres per annum.

(ii) where, in the alcohol consumed, the pure alcohol content is more than 2250 litres per annum.";

(ii) against Sl. No. 2, in the second column,—

(1) in item (a), for sub-items (i), (ii) and (iii), the following sub-items shall be substituted namely:—

"(i) where, in the alcohol consumed, the pure alcohol is 70 litres or less per annum.

(ii) where, in the alcohol consumed, the pure alcohol is more than 70 litres but less than 280 litres per annum.

(iii) where, in the alcohol consumed, the pure alcohol content is 280 litres or more per annum.";

(2) in item (c), for sub-items (i), (ii) and (iii), the following sub-items shall be substituted, namely:—

"(i) where, in the alcohol consumed, the pure alcohol content is 70 litres or less per annum.

(ii) where, in the alcohol consumed, the pure alcohol content is more than 70 litres but less than 280 litres per annum.

(iii) where, in the alcohol consumed, the pure alcohol content is 280 litres or more per annum.";

16. In rule 91 of the said rules,—

(a) in clause (vi), for the words "the maximum quantities in London proof litres of alcohol" the words "the maximum quantities of pure alcohol in litres" shall be substituted;

(b) in clause (ix), for the words "the percentage or proportion of alcohol in terms of London Proof litres" the words "percentage of pure alcohol in litres" shall be substituted.

17. In rule 99 of the said rules,—

(a) in sub-rule (1), for the words "alcoholic contents in London Proof litres" the words "pure alcohol content in litres" shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), for the words "alcoholic content in London Proof litres" the words "pure alcohol content in litres" shall be substituted;

(c) in clause (d) of sub-rule (3), for the words "Alcoholic content of the goods in London Proof litres" the words "The pure alcohol content in litres" shall be substituted.

18. In the said rules,—

(a) in the Table to Form A.L.-1 and in Forms L-1 and L-2, for the words "London Proof litres"

wherever they occur, the words "pure alcohol content in litres" shall be substituted;

- (b) In Form R.G.-2, for the words "strength" and "Proof" wherever they occur, the words "Purity" and "content of pure alcohol" shall respectively be substituted;
- (c) In Form R.G.-3, for the words "Strength" and "London Proof litres" wherever they occur, the words "Purity" and "Pure alcohol content in litres" shall respectively be substituted ;
- (d) In Form R.G.-4, in the heading to column 4, for the words, brackets and letters "Alcohol (in L.P. litres)" the words "Pure alcohol in litres" shall be substituted;
- (e) In Forms R.G.-5 (Part I) and R.G.-5 (Part II) for the words and letters "Alcohol in L.P. litres" wherever they occur, the words "pure alcohol in litres" shall be substituted;
- (f) In Form I.D.-1, for the expression "of not less than 50° O.P. Strength" wherever it occurs, the expression "of not less than 85.60° by volume of pure alcohol" shall be substituted;
- (g) In R.Q.1, for the words "Strength" and "Alcoholic Proof Content" wherever they occur, the words "Purity" and "Pure alcohol in litres" shall respectively be substituted;
- (h) In Form A.R.-1, A.R.-2, A.R.-3, A.R.-4 and TP-1, the words and letters "Alcohol in L.P. litres", the words "Pure alcohol in litres" shall be substituted ;
- (i) In Form D.D.-1, for the words, brackets and letters "Alcohol (in L.P. litres)" wherever they occur, the words "Pure alcohol in litres" shall be substituted;
- (j) In Form R.T.-1, for the words and letters "Alcohol L.P." the words "Pure alcohol" shall be substituted;
- (k) In Form R.T.-2, for the words and letters "Alcohol in L.P. litres" shall be substituted.

[Notification No. 1/81-Opium/SF. No. 655/2/81-Opml]

Z. B. NAGARKAR, Under Secy.,